



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श०)
(सं० पटना 543) पटना, बृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना
12 मार्च 2015

सं० 1703—बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम— जागीर गाच्छी मक्खाचक, पो०— बखरी पंचायत, वार्ड नं०— 4 स्थित श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, मक्खाचक पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 116 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक—2808, दिनांक 10/10/2006 द्वारा एक न्यास समिति का गठन पांच वर्षों के लिए किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष, अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी एवं सचिव श्री राज किशोर राज बनाये गये थे। श्री राज के नेतृत्व में चल रही न्यास समिति का कार्य संतोषजनक नहीं रहा। समिति द्वारा पर्षद की बिना अनुमति के ही, न्यास की दो एकड़ भूमि अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी तथा लगभग छः एकड़ भूमि डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु बिहार सरकार को दिया गया। इस हस्तान्तरण के लिए पर्षद से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी। बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—44 एवं 28 (2) (ज) (ज) के प्रावधानों के तहत पर्षद की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना न्यास की भूमि का हस्तान्तरण अवैध एवं अमान्य था। साथ ही न्यास समिति का कार्यकाल पूरा हो गया था। अतः पर्षदीय ज्ञापांक—1083, दिनांक 09/09/2013 द्वारा इसका कार्यकाल समाप्त माना गया। साथ ही पर्षदीय पत्रांक—2016, दिनांक 29/01/2014 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी की अधिनियम की धारा— 33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया।

अंचल पदाधिकारी, बखरी ने अपने ज्ञापांक— 783, दिनांक 15/10/14 एवं संशोधित ज्ञापांक—129, दिनांक 13/02/15 द्वारा आम सभा में प्रस्तावित समिति की नामावली की प्रतिलिपि पर्षद को भेजी है। साथ ही अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता और अनुमंडल पदाधिकारी के अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इस प्रकार न्यास के सुचारु प्रबंधन के लिए समिति का गठन करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 के अन्तर्गत धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, जागीर गाच्छी, पो०+थाना— मक्खाचक, अंचल— बखरी, जिला— बेगुसराय के सुचारु प्रबंधन, सुरक्षा एवं सम्यक् संचालन हेतु, निम्नलिखित योजना का निरूपण तथा योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, जागीर गाच्छी, पो0+थाना- मक्खाचक, अंचल- बखरी, जिला- बेगुसराय” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, जागीर गाच्छी, पो0+थाना- मक्खाचक, अंचल- बखरी, जिला- बेगुसराय” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

(1) अंचल पदाधिकारी, बखरी, बेगुसराय	—	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री राम लखन महतो पिता- स्व0 बुधु महतो, ग्राम- मक्खाचक	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री रिपुंजय कुमार पिता- सुरेश राय, ग्राम- रामपुर	—	सचिव
(4) श्री राज कुमार मुखिया पिता- राम विलास मुखिया, ग्राम- रामपुर	—	कोषाध्यक्ष
(5) श्री राज कुमार केशरी पिता- स्व0 गंगा प्र0 केशरी, ग्राम- रामपुर	—	सदस्य
(6) श्री राम प्रसाद महतो पिता- स्व0 गुलो महतो ग्राम- मक्खाचक	—	“
(7) संयुक्ता देवी पति- रामप्रित साह, ग्राम- रामपुर	—	“
(8) रुना देवी पति- राम नारायण पंडित, ग्राम- मक्खाचक	—	“
(9) श्री गंगा पासवान पिता- उमेशी पासवान, ग्राम- मक्खाचक	—	“
(10) किरण देवी पति- जगदीश केशरी, ग्राम- रामपुर	—	“
(11) शिव कुमारी देवी पति- उमेश केशरी, ग्राम- रामपुर,	—	“

12. उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल तिथि 12/03/2015 से 05 वर्ष तक होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 543-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>